

I कविता - प्रार्थना

हम बालक नादान ,

शीश नवाकर करें प्रणाम ।

उस प्रभु का करें गुणगान ,

जिसने यह संसार रचाया ,

धरती - पानी - हवा बनाया ,

जीने का ढंग हमें सिखाया ॥

II हिन्दी और अंग्रेजी अर्थ :

1. बालक - बच्चा

2. शीश - सिर

3. गुण गाना - Sing Praises

4. बनाना - to create / to make

5. पानी - प्लव

6. ढंग - तरीका

7. प्रिय - प्यारे

8. प्रभु - भगवान

9. संसार - दुनिया / जगत
10. धरती - पृथ्वी
11. दैवा - वायु
12. माता - पिता - Parents
13. सुमन - फूल
14. नवाकर - झुका कर

III प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए :

1. बालक क्या कर रहे हैं ?

उ: बालक ईश्वर के प्रति शीश नवाकर प्रणाम करते हुए प्रभु का गुणगान कर रहे हैं।

2. बालक क्या बनना चाहते हैं ?

उ: बालक जीवन में अमन से रहते हुए सबके प्रिय सुमन बनना चाहते हैं।

IV प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

1. बच्चे किसका गुणगान करते हैं ?

उ: बच्चे प्रभु का गुणगान करते हैं।

2. इस संसार को किसने बनाया ?

उ: प्रभु (ईश्वर) ने इस संसार को बनाया।

3. 'प्रिय सुमन' का क्या अर्थ है ?

उ: 'प्रिय सुमन' का अर्थ है - प्यारा फूल।

Complete all the bookback exercise 5, 6, 7, 8

CHAPTER - 2

पाठ - कौन क्या करता है ?

I शब्दार्थ :

1. सैनिक - सिपाही
2. सरदी - ठंड
3. गरमी - ~~उष्णता~~ उष्णता
4. जानकारी - knowledge / information
5. कल के नागरिक - future citizens
6. प्रेरणा - inspiration / encouragement.
7. मौसम - ऋतु
8. दवाई - औषधि
9. गेहूँ - wheat
10. टंकी - tank
11. रूप-रेखा - design
12. नक्शा - layout
13. फसल उगाना - खेती करना
14. सरहद - border
15. बाढ़ - flood.

16. भूकंप - भूचाल

17. विपदा - मुसीबत

18. खेती - कृषि

19. बीमारी - रोग

20. अनाज - अन्न

21. चावल - धान

22. कल - समूह

23. कमकल - आग बुझानेवाली गाड़ी

24. अग्निशामक - आग बुझानेवाला

II प्रश्नों के उत्तर लिखिए:

1. किसान क्या करता है ?

उ: किसान खेती करता है। वह अनाज एवं सब्जियाँ आता है।

2. पढ़ना - लिखना हमें कौन सिखाता है ?

उ: पढ़ना - लिखना सिखाने वालों को अध्यापक / अध्यापिका कहते हैं।

3. बीमार लोगों का इलाज कौन करता है ?

उ: बीमार लोगों का इलाज डॉक्टर करता है ।

4. अग्निशमक दल का क्या काम है ?

उ: अग्निशमक दल का कर्तव्य किसी इलाके में लगी आग को बुझाना होता है ।

5. सड़कों और बाँधों की रूप रेखा कौन तैयार करता है ?

उ: सड़कों और बाँधों की रूपरेखा सिविल इंजीनियर तैयार करता है ।

6. सैनिक देश की रक्षा कैसे करते हैं ?

उ: सैनिक कई तरह से देश की रक्षा करते हैं । वे देश की सीमा पर शत्रुओं से लड़कर उन्हें भगाते हैं । वे बाढ़, भूकम्प तथा अन्य विपदाओं में देशवासियों की सहायता करते हैं तथा उनके जान - माल की रक्षा करते हैं ।

7. हमारे जीवन में किसान का क्या महत्व है ?

उ. हमारे जीवन में किसान का बहुत महत्व है।

किसान खेती करते हुए मौसम के अनुसार अनाज

उगाते हैं। वे गेहूँ, चावल, दाल, चना, इन्ध

आदि के साथ-साथ साग-सब्जियाँ की पैदावार भी करते हैं।

8. अपने फैमिली डॉक्टर के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखिए।

उ. हमारी फैमिली डॉक्टर समय-समय पर हमारे घर आते हैं। वे हमारे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की जाँच करते हैं।

9. अग्निशामक दल का क्या काम है ?

उ. अग्निशामक दल उस स्थान पर तुरंत पहुँच जाता है जहाँ आग लगी होती है। वे अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाते हैं तथा लोगों के जान-माल की रक्षा करते हैं।

10. सड़कों और बाँधों की रूप-रेखा कौन तैयार करता है ?

उ: सिविल इंजीनियर सड़कों, बाँधों, पुलों, एवं ऊँची-ऊँची इमारतों का नक्शा तैयार करते हैं। और हमारे जीवन को आसान बनाते हैं।

Complete all the bookback exercise, 13, 14, 15, 16
Page No.

व्याकरण भारती (Grammar book)

भाषा और व्याकरण

Complete the bookback exercise
Page No - 8, 9,

वर्ण - Page No - 15, 16

शब्दा - Page No - 20, 21

लिङ्ग - Page No - 24, 25

वचन - Page No - 29, 30

कारक - Page No - 33, 34

सर्वनाम - Page No - 38, 39